

5	וַיָּבֹאוּ אִתָּם מִן־הָעָם וַיִּשְׁמְעוּ אֶת־כֹּל־שֵׁם יְהוָה וַיִּשְׁחָזְקוּ אֶת־לִבָּם וַיִּשְׁמְעוּ אֶת־כֹּל־שֵׁם יְהוָה וַיִּשְׁחָזְקוּ אֶת־לִבָּם וַיִּשְׁמְעוּ אֶת־כֹּל־שֵׁם יְהוָה וַיִּשְׁחָזְקוּ אֶת־לִבָּם
	और-मारा उनमें-से पुरुषों-ने अय-के छत्तीस और-छह और-पीछा-किया और-पीछा-किया और-पीछा-किया और-पीछा-किया
	H5704 H8179 H6440 H7291 H0376 H8337 H7970 H5857 H0376 H1992 H5221
	וַיִּשְׁמְעוּ אֶת־כֹּל־שֵׁם יְהוָה וַיִּשְׁחָזְקוּ אֶת־לִבָּם וַיִּשְׁמְעוּ אֶת־כֹּל־שֵׁם יְהוָה וַיִּשְׁחָזְקוּ אֶת־לִבָּם
	शबारीम और-मारा-उन्हें लोगों-का हृदय और-पिघला डलान-पर और-मारा-उन्हें पानी-जैसा और-हुआ
	H4325 H1961 H3824 H4549 H4174 H5221 H7671

इसलिए लगभग तीन हजार व्यक्ति ऐ गए। किन्तु ऐ के लोगों ने लगभग छत्तीस इस्राएल के व्यक्तियों को मार गिराया और इस्राएल के लोग भाग खड़े हुए। ऐ के लोगों ने नगर—द्वार से लगातार पत्थर की खदानों तक पीछा किया। इस प्रकार ऐ के लोगों ने उन्हें बुरी तरह पीटा। जब इस्राएल के लोगों ने यह देखा तो वे बहुत भयभीत हो उठे और साहस छोड़ बैठे।

6	וַיִּקְרַע וַיְהוֹשֻׁעַ שְׂמֹלֹתָיו וַיַּפֵּל עַל־פְּנֵי אֲרָצָהּ לְפָנֵי אֲרֹן יְהוָה עַד־הָעָרִב הוּא וְזִקְנָיו וַיִּשְׁמְעוּ אֶת־כֹּל־שֵׁם יְהוָה וַיִּשְׁחָזְקוּ אֶת־לִבָּם וַיִּשְׁמְעוּ אֶת־כֹּל־שֵׁם יְהוָה וַיִּשְׁחָזְקוּ אֶת־לִבָּם
	और-फाड़ा यहोशू-ने वस्त्रों-को और-गिरा और-मारा और-मारा और-मारा और-मारा और-मारा और-मारा और-मारा और-मारा और-मारा
	H5704 H3068 H0727 H6440 H0776 H6440 H5307 H8071 H3091 H7167
	וַיִּשְׁמְעוּ אֶת־כֹּל־שֵׁם יְהוָה וַיִּשְׁחָזְקוּ אֶת־לִבָּם וַיִּשְׁמְעוּ אֶת־כֹּל־שֵׁם יְהוָה וַיִּשְׁחָזְקוּ אֶת־לִבָּם
	सांझ वह और-पुरनिये और-मारा-के और-डाला और-धूल पर सिरों-अपने
	H6083 H5927 H3478 H2205 H1931 H6153

जब यहोशू ने इसके बारे में सुना तो उसने अपने वस्त्र फाड़ डाले। वह पवित्र सन्दूक के सामने जमीन पर लेट गया। यहोशू वहाँ शाम तक पड़ा रहा। इस्राएल के नेताओं ने भी यही किया। उन्होंने अपने सिरों पर धूल डाली।

7	וַיֹּאמֶר יְהוֹשֻׁעַ אֶל־הָעָם וַיֹּאמֶר יְהוֹשֻׁעַ אֶל־הָעָם וַיֹּאמֶר יְהוֹשֻׁעַ אֶל־הָעָם וַיֹּאמֶר יְהוֹשֻׁעַ אֶל־הָעָם
	और-कहा यहोशू-ने
	H0853 H2088 H0853 H4100 H3069 H0136 H0162 H3091 H0559
	וַיִּשְׁמְעוּ אֶת־כֹּל־שֵׁם יְהוָה וַיִּשְׁחָזְקוּ אֶת־לִבָּם וַיִּשְׁמְעוּ אֶת־כֹּל־שֵׁם יְהוָה וַיִּשְׁחָזְקוּ אֶת־לִבָּם
	यर्दन-के देने-के-लिए हमें हाथ-में एमोरियों-के नाश-करने और-काश हम-राजी-होते और-बसते
	H5676 H3427 H2974 H3863 H0006 H0567 H3027 H0853 H5414 H3383
	וַיִּשְׁמְעוּ אֶת־כֹּל־שֵׁם יְהוָה וַיִּשְׁחָזְקוּ אֶת־לִבָּם וַיִּשְׁמְעוּ אֶת־כֹּל־שֵׁם יְהוָה וַיִּשְׁחָזְקוּ אֶת־לִבָּם
	यर्दन-के
	H3383

तब यहोशू ने कहा, “यहोवा, मेरे स्वामी! तू हमारे लोगों को यरदन नदी के पार लाया। किन्तु तू हमें इतनी दूर क्यों लाया और तब एमोरी लोगों द्वारा हमें क्यों नष्ट होने देता है? हम लोग यरदन नदी के दूसरे तट पर ठहरे रहते और सन्तुष्ट रहते।

8	כִּי אָמַרְנוּ אֵלֵינוּ וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה וְאֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה וְאֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל
	हे प्रभु क्या कहूँ बाद जो फिरा इस्राएल-ने और-घरेंगे
	H0341 H6440 H6203 H3478 H2015 H0559 H4100 H0136 H0994

मेरे योहवा, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि अब ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं तुझसे कह सकूँ। इस्राएल ने शत्रुओं के सामने समर्पण कर दिया है।

9	וַיִּשְׁמְעוּ אֶת־כֹּל־שֵׁם יְהוָה וַיִּשְׁחָזְקוּ אֶת־לִבָּם וַיִּשְׁמְעוּ אֶת־כֹּל־שֵׁם יְהוָה וַיִּשְׁחָזְקוּ אֶת־לִבָּם
	और-सुनेंगे
	H8034 H0853 H3772 H5437 H0776 H3427 H3605 H8085
	וַיִּשְׁמְעוּ אֶת־כֹּל־שֵׁם יְהוָה וַיִּשְׁחָזְקוּ אֶת־לִבָּם וַיִּשְׁמְעוּ אֶת־כֹּל־שֵׁם יְהוָה וַיִּשְׁחָזְקוּ אֶת־לִבָּם
	पृथ्वी और-क्या और-करेगा नाम-तेरे
	H8034 H4100 H0776

कनानी और इस देश के सभी लोग वह सुनेंगे जो हुआ, तब वे हम लोगों के विरुद्ध आएंगे और हम सभी को मार डालेंगे। तब तू अपने महान नाम की रक्षा के लिये क्या करेगा?”

10	וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל־יְהוֹשֻׁעַ וְאֶל־כָּל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל־יְהוֹשֻׁעַ וְאֶל־כָּל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל
	और-कहा
	H6440 H5307 H2088 H4100 H3091 H0413 H3068 H0559

यहोवा ने यहोशू से कहा, “खड़े हो जाओ। तुम मूँह के बल क्यों गिरे हो?”

11
 קָטַא יִשְׂרָאֵל וְגַם עֲבָרָו אֶת-בְּרִיתִי אֲשֶׁר צִוִּיתִי אוֹתָם וְגַם לָקְחוּ
 पाप-किया इस्राएल-ने और-भी उल्लंघन-किया को वाचा-मेरी जो और-भी उन्हें और-भी लिया
[H3947](#) [H1571](#) [H0853](#) [H6680](#) [H1285](#) [H0853](#) [H1571](#) [H3478](#) [H2398](#)

מִן-הַחָרָם וְגַם נָגְבוּ וְגַם כָּחֲשׂוּ וְגַם שָׂמוּ בְכֹלֵיהֶם:
 से श्रापित और-भी और-भी और-भी और-भी और-भी सामान-में-अपने रखा
[H3627](#) [H1571](#) [H3584](#) [H1571](#) [H1589](#) [H1571](#)

इस्राएल के लोगों ने मेरे विरुद्ध पाप किया। उन्होंने मेरी उस वाचा को तोड़ा, जिसके पालन का आदेश मैंने दिया था। उन्होंने वे कुछ चीजें लीं जिन्हें नष्ट करने का आदेश मैंने दिया है। उन्होंने मेरी चोरी की है। उन्होंने झूठी बात कही है। उन्होंने वे चीजें अपने पास रखी हैं।

12
 וְלֹא יָכֻלוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל לָקוֹם לָפָנָי אִיבֵיהֶם עָרָף יִפְנוּ לִפְנֵי אִיבֵיהֶם
 और-नहीं और-भी इस्राएल-के पुत्र खड़े-हीने सामने शत्रुओं-के-अपने पीठ शत्रुओं-के-अपने सामने शत्रुओं-के-अपने
[H0341](#) [H6440](#) [H6437](#) [H6203](#) [H0341](#) [H6440](#) [H3478](#) [H3201](#) [H3808](#)

כִּי כִּי הָיוּ לְחָרָם לֹא אוֹסִיף לְהַנּוֹת עִמָּכֶם אִם-לֹא תִשְׁמְדוּ הַחָרָם
 क्योंकि क्योंकि हुए श्रापित-को नहीं यदि तुम्हारे-साथ होने जारी-रखूंगा नहीं श्रापित-को नाश-करोगे नहीं
[H8045](#) [H3808](#) [H1961](#) [H3254](#) [H3808](#) [H1961](#)

מִקֶּרְבְּכֶם:
 बीच-से-अपने
[H7130](#)

यही कारण है की इस्राएल की सेना युद्ध से मुँह मोड़ कर भाग खड़ी हुई। यह उनकी बुराई के कारण हुआ। उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। मैं तुम्हारी सहायता नहीं करता रहूँगा। मैं तब तक तुम्हारे साथ नहीं रह सकूँगा जब तक तुम यह नहीं करते। तुम्हें उस हर चीज़ को नष्ट करना चाहिए, जिसे मैंने नष्ट करने का आदेश दिया है।

13
 קָם קָדַשׁ אֶת-הַעֵם וְאִמְרָתָּהּ הַתְּקַדְּשׁוּ לְמַחֵר כִּי כֹה אָמַר יְהוָה
 उठ पवित्र-कर को लोग और-कह पवित्र-करो कल-के-लिए क्योंकि ऐसा कहा यहीवा-ने
[H3068](#) [H0559](#) [H3541](#) [H4279](#) [H6942](#) [H0559](#) [H0853](#) [H6942](#)

אֵלֵהֶי אִשְׂרָאֵל הָרָם בְּקֶרְבְּךָ יִשְׂרָאֵל לֹא תֹכֵל לָקוֹם לִפְנֵי אִיבֵי עַד-תָּקוּם
 परमेश्वर-ने इस्राएल-के श्रापित श्रापित बीच-में-तेरे इस्राएल नहीं सकेगा सामने शत्रुओं-के-तेरे तक
[H5704](#) [H0341](#) [H6440](#) [H3201](#) [H3808](#) [H3478](#) [H7130](#) [H3478](#) [H0430](#)

הַסִּירְכֶם הַחָרָם מִקֶּרְבְּכֶם:
 हटाओगे श्रापित-को बीच-से-अपने
[H7130](#) [H5493](#)

“अब तुम जाओ और लोगों को पवित्र करो। लोगों से कहो, ‘वे अपने को पवित्र करें। कल के लिये तैयार हो जाओ। इस्राएल का परमेश्वर यहीवा कहता है कि कुछ लोगों ने वे चीजें अपने पास रखी हैं, जिन्हें मैंने नष्ट करने का आदेश दिया था। तुम तब तक अपने शत्रुओं को पराजित करने योग्य नहीं होओगे, जब तक तुम उन चीजों को फेंक नहीं देते।

14
 וְנִקְרַבְתֶּם בְּבִקְרָה לְשִׁבְטֵיכֶם וְהָיָה הַשְּׁבֵט אֲשֶׁר יִלְכְּדוּ יְהוָה יִקְרַב נִיכָט-आएगा यहीवा पकड़ेगा जिसे गोत्र और-होगा गोत्रों-के-अनुसार सुबह-में और-निकट-आओगे
[H7126](#) [H3068](#) [H3920](#) [H7626](#) [H1961](#) [H7626](#) [H1242](#) [H7126](#)

לְמַשְׁפְּחוֹת וְהַמִּשְׁפָּחָה אֲשֶׁר-יִלְכְּדוּ יְהוָה יִקְרַב יְהוָה יִלְכְּדוּ
 कुलों-के-अनुसार और-कुल कुलों-के-अनुसार यहीवा पकड़ेगा यहीवा पकड़ेगा जिसे और-कुल कुलों-के-अनुसार
[H7126](#) [H4940](#) [H4940](#) [H7126](#) [H3920](#) [H3068](#) [H3920](#)

לְכַבְּרֵי: יְהוָה יִקְרַב יְהוָה יִלְכְּדוּ
 पुरुषों-के-अनुसार निकट-आएगा यहीवा पकड़ेगा
[H1397](#) [H7126](#) [H3068](#) [H3920](#)

“कल प्रातः तुम सभी को यहीवा सामने खड़ा होना होगा। सभी परिवार समूह यहीवा के सामने पेश होंगे। यहीवा एक परिवार समूह को चुनेगा। तब केवल वही परिवार समूह यहीवा के सामने खड़ा होगा। तब उस परिवार समूह में से यहीवा एक वंश को चुनेगा। तब बस वही वंश यहीवा के सामने खड़ा होगा। तब यहीवा उस वंश के प्रत्येक परिवार की परख करेगा। तब यहीवा उस वंश में से एक परिवार को चुनेगा। तब वह परिवार अकेले यहीवा के सामने खड़ा होगा। तब यहीवा उस परिवार के हर पुरुष की जाँच करेगा।

15 וְהָיָה הַגִּלְגָּד בְּחָרָם יִשְׂרָאֵל בְּאֶשׁ אֲתוֹ וְאֵת כָּל-אֲשֶׁר-לֹא כִי
 और-होगा और-होगा पकड़ा-गया श्रापित-में जलाया-जाएगा आग-में आग-में और उसे और
[H3605](#) [H0853](#) [H0853](#) [H0784](#) [H8313](#) [H3920](#) [H1961](#)

עֲבַר אֶת-בְּרִית יְהוָה וְכִי-עָשָׂה נִבְלָה בְּיִשְׂרָאֵל:
 उल्लंघन-किया को वाचा की यहोवा-की और-क्योंकि किया मुखता इस्राएल-में
[H3478](#) [H5039](#) [H3068](#) [H1285](#) [H0853](#)

वह व्यक्ति जो इन चीजों के साथ पाया जाएगा जिन्हें हमें नष्ट कर देना चाहिए था, पकड़ लिया जाएगा। तब वह व्यक्ति आग में झोंककर नष्ट कर दिया जाएगा और उसके साथ उसकी हर एक चीज़ नष्ट कर दी जाएगी। उस व्यक्ति ने यहोवा के उस वाचा को तोड़ा है। उसने इस्राएल के लोगों के प्रति बहुत ही बुरा काम किया है।”

16 וַיִּשְׁכַּם וַיְהוֹשֻׁעַ בְּבֹקֶר וַיִּקְרַב אֶת-וַיִּקְרַב אֶת-יִשְׂרָאֵל לְשִׁבְטוֹ וַיִּלְכְּדוּ שְׁבֹט
 और-जागा-सवेरे और-जागा-सवेरे सुबह-में यहोशू और-निकट-लाया और-निकट-लाया इस्राएल को और-निकट-लाया और-पकड़ा-गया और-निकट-लाया
[H7626](#) [H3920](#) [H7626](#) [H3478](#) [H0853](#) [H7126](#) [H1242](#) [H3091](#) [H7925](#)

יְהוּדָה:
 यहूदा-का
[H3063](#)

अगली सुबह यहोशू इस्राएल के सभी लोगों को यहोवा के सामने ले गया। सारे परिवार समूह यहोवा के समाने खड़े हो गए। यहोवा न यहूदा परिवार समूह को चुना।

17 וַיִּקְרַב אֶת-מִשְׁפַּחַת יְהוּדָה וַיִּלְכְּדוּ אֶת-מִשְׁפַּחַת יִשְׂרָאֵל לְשִׁבְטוֹ וַיִּקְרַב אֶת-וַיִּקְרַב אֶת-וַיִּקְרַב
 और-निकट-लाया और-निकट-लाया कुल को और-पकड़ा कुल को और-निकट-लाया और-निकट-लाया और-निकट-लाया और-निकट-लाया
[H0853](#) [H7126](#) [H2227](#) [H4940](#) [H0853](#) [H3920](#) [H3063](#) [H4940](#) [H0853](#) [H7126](#)

מִשְׁפַּחַת יִשְׂרָאֵל לְשִׁבְטוֹ וַיִּלְכְּדוּ וְכִי-जब्दी और-पकड़ा-गया और-निकट-लाया और-निकट-लाया और-निकट-लाया
[H2067](#) [H3920](#) [H1397](#) [H2227](#) [H4940](#)

तब सभी यहूदा परिवार समूह यहोवा के सामने खड़े हुए। यहोवा ने जेरह वंश को चुना। तब जेरह वंश के सभी लोग यहोवा के सामने खड़े हुए। इन में से जब्दी का परिवार चुना गया।

18 וַיִּקְרַב אֶת-בְּנֵי בֵּיתוֹ לְגִבְרִים וַיִּלְכְּדוּ אֶת-בְּנֵי בֵּיתוֹ לְגִבְרִים וַיִּלְכְּדוּ אֶת-בְּנֵי בֵּיתוֹ לְגִבְרִים
 और-निकट-लाया और-निकट-लाया को और-निकट-लाया और-निकट-लाया और-निकट-लाया और-निकट-लाया और-निकट-लाया और-निकट-लाया
[H0853](#) [H7126](#)

וְכִי-जब्दी-का और-निकट-लाया और-निकट-लाया और-निकट-लाया और-निकट-लाया और-निकट-लाया
[H3063](#) [H4294](#) [H2226](#) [H2067](#)

तब यहोशू ने इस परिवार के सभी पुरुषों को यहोवा के सामने आने को कहा। यहोवा ने कर्मी के पुत्र आकान को चुना। (कर्मी जब्दी का पुत्र था और जब्दी जेरह का पुत्र था।)

19 וַיֹּאמֶר יְהוֹשֻׁעַ אֶל-עַכְּוֹן בְּנֵי-שִׁים-נָא כְבוֹד לַיהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל וְתֹן-
 और-कहा और-कहा ने यहोशू-ने से आकान से आकान पुत्र-मेरे दे कृपया महिमा यहोवा-को परमेश्वर इस्राएल-के और-दे
[H5414](#) [H3478](#) [H0430](#) [H3068](#) [H3519](#) [H4994](#) [H5912](#) [H0413](#) [H3091](#) [H0559](#)

לֹא תוֹדָה וְהִגַּד-נָא לִי מָה עָשִׂיתָ אֵל-תְּכַדָּר מִמֶּנִּי:
 उसे स्तुति और-बता और-बता कृपया मुझे क्या क्या तूने किया-मत मुझसे छिपा
[H3582](#) [H0408](#) [H4100](#) [H4994](#) [H5046](#) [H8426](#)

तब यहोशू न आकान से कहा, “पुत्र, तुम्हें अपनी प्रार्थना करनी चाहिए। इस्राएल के यहोवा परमेश्वर का सम्मान करना चाहिए और उससे तुम्हें अपने पापों को स्वीकार करना चाहिए। मुझे बताओ कि तुमने क्या किया? मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश न करो!”

25
 אֲתָוּ וַיִּרְגְּמוּ וַיְהוֹרֵם בַּיּוֹם יְהוָה יַעֲקֹבֶיךָ עֲבַרְתָּנוּ עֲבַרְתָּנוּ מָה יְהוֹשֻׁעַ וַיֹּאמֶר
 उसे और-मारा-पत्थरों-से इस दिन यहोवा दुख-देगा-तुझे दुख-दिया-तूने-हमें क्यों यहोशू-ने और-कहा
 H0853 H7275 H2088 H3117 H3068 H5916 H5916 H4100 H3091 H0559

כָּל-יִשְׂרָאֵל אֶבֶן וַיִּשְׂרְפוּ אֹתָם בָּאֵשׁ וַיִּסְקְלוּ אֹתָם בְּאֲבָנִים:
 सब इसाएल-ने पत्थर और-जलाया उन्हें और-पत्थर-मारे आग-में उन्हें पत्थरों-से
 H0068 H0853 H5619 H0784 H0853 H8313 H0068 H3478 H3605

तब यहोशू ने कहा, "तुमने हमारे लिये ये सब मुसीबतें क्यों की? अब यहोवा तुम पर मुसीबत लाएगा!" तब सभी लोगों ने आकान और उसके परिवार पर तब तक पत्थर फेंके जब तक वे मर नहीं गए। उन्होंने उसके परिवार को भी मार डाला। तब लोगों ने उन्हें और उसकी सभी वस्तुओं को जला दिया।

26
 וַיִּקְיֵמוּ עָלָיו גֵּל-אֲבָנִים וַיִּקְרָאוּ עַד הַיּוֹם הַזֶּה מִחַרְוֹן
 और-खड़ा-किया उस-पर उस-पर और-लौटा इस दिन तक बड़ा पत्थरों-का ढेर से-जलन यहोवा और-लौटा
 H2740 H3068 H7725 H2088 H3117 H5704 H0068 H1530

פ — אִפּוֹ עַל-כֵּן קָרָא שָׁם הַמְּקוֹם הַהוּא עֵמֶק עֲכוֹר עַד הַיּוֹם הַזֶּה:
 क्रोध-के-अपने पर इसलिए इस-पर नाम पुकारा नाम स्थान-का उस घाटी आकोर तक दिन इस
 H2088 H3117 H5704 H5911 H6010 H1931 H4725 H8034 H7121 H0639

आकान को जलाने के बाद उसके शरीर पर उन्होंने कई शिलार्यें रखीं। वे शिलार्यें आज भी वहाँ हैं। इस तरह यहोवा ने आकान पर विपत्ति ढाई। यही कारण है कि वह स्थान आकोर घाटी कहा जाता है। इसके बाद, यहोवा लोगों से अप्रसन्न नहीं रहा।